



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1185) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

6 अगस्त 2015

सं० 1462—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शालिग्राम ठाकुरवाड़ी, ग्राम+पो0—पानापुर करियात, थाना+अंचल—काँटी, जिला—मुजफ्फरपुर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1953 है।

इस न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय पत्रांक—1912 दिनांक 14.07.88 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी मुजफ्फरपुर को अधिनियम की धारा—33 के तहत अस्थाई न्यासधारी नियुक्त किया गया था, परन्तु उनका प्रभार प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

दिनांक 15.06.2013 को स्थानीय जनता द्वारा इस न्यास की कुव्यवस्था के संबंध में पर्षद् में एक आवेदन दिया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक में पर्षदीय पत्रांक—749 दिनांक 20.07.13 द्वारा अंचलाधिकारी काँटी से इस न्यास का जाँच कर एक प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी काँटी ने अपने पत्रांक—1449 दिनांक 23.09.2013 द्वारा सूचित किया कि न्यास का संचालन समुचित ढंग से नहीं हो रहा है, और इसकी आय का दुरुपयोग हो रहा है।

इसके आलोक में पर्षदीय पत्रांक—2342 दिनांक 12.03.2014 द्वारा अंचलाधिकारी, काँटी से इस न्यास के सफल संचालन, प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए न्यास समिति के गठन हेतु स्थानीय ग्यारह निष्ठावान धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का नाम भेजने का अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी, काँटी द्वारा पत्रांक—1451 दिनांक 23.09.2014 के मध्यम से न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री शालिग्राम ठाकुरवाड़ी, ग्राम+पो0—पानापुर करियात, थाना+अंचल—काँटी, जिला—मुजफ्फरपुर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री शालिग्राम ठाकुरवाड़ी, पानापुर करियात न्यास योजना होगा”** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री शालिग्राम ठाकुरवाड़ी, पानापुर करियात न्यास समिति होगी”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री संतोष कुमार पे0 श्री जितेन्द्र कुमार	—	अध्यक्ष
(2)	श्री नित्य प्रकाश पे0 स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह	—	सचिव
(3)	श्री रतन कुमार पे0 श्री चन्द्रमणी कुमार	—	कोषाध्यक्ष
(4)	श्री सरोज महतो पे0 स्व0 सीताराम महतो	—	सदस्य
(5)	श्री जितेन्द्र कुमार पे0 श्री रामश्रेष्ठ सिंह	—	सदस्य
(6)	श्री उत्तम कुमार पे0 श्री उदय नारायण सिंह	—	सदस्य
(7)	श्री दिलिप कुमार पे0 श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह	—	सदस्य
(8)	श्री गोपाल प्रसाद सिंह पे0 स्व0 जयनारायण प्रसाद सिंह	—	सदस्य
(9)	श्री सत्यम सुमन गौतम पे0 स्व0 गणेश प्रसाद सिंह	—	सदस्य
(10)	श्री नीरज कुमार पे0 श्री श्याम नारायण सिंह	—	सदस्य
(11)	श्री सोनेलाल राम पे0 श्री रामवृक्ष राम	—	सदस्य

उपरोक्त सभी का पता :- ग्राम+पो0-पानापुर करियात, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर।

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 1.8.15 से पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1185-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>